

परिशिष्ट सारणी VI.6: एनबीएफसी-यूएल का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	1,12,952	1,41,310	1,82,115	1,01,219
(i) निधि आधारित आय	1,07,477	1,32,676	1,71,480	95,976
	(95.2)	(93.9)	(94.2)	(94.8)
(ii) शुल्क आधारित आय	588	2,424	4,219	2,314
	(0.5)	(1.7)	(2.3)	(2.3)
बी. व्यय	86,201	1,02,181	1,30,395	71,939
(i) वित्तीय व्यय	43,258	52,579	72,748	39,868
	(50.2)	(51.5)	(55.8)	(55.4)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	21,849	29,132	42,930	24,514
	(25.3)	(28.5)	(32.9)	(34.1)
(ii) परिचालन व्यय	22,903	30,588	37,349	19,606
	(26.6)	(29.9)	(28.6)	(27.3)
(iii) अन्य	20,039	19,014	20,298	12,465
	(23.2)	(18.6)	(15.6)	(17.3)
सी. कर प्रावधान	6,823	10,373	13,102	7,263
डी. कर पूर्व लाभ	26,751	39,129	51,720	29,280
ई. निवल लाभ	19,928	28,756	38,618	22,017
एफ. कुल आस्तियां	8,46,058	10,71,050	13,59,521	13,73,785
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	13.4	13.2	13.4	14.7
(ii) निधिगत आय	12.7	12.4	12.6	14.0
(iii) शुल्क आय	0.1	0.2	0.3	0.3
(iv) व्यय	10.2	9.5	9.6	10.5
(v) वित्तीय व्यय	5.1	4.9	5.4	5.8
(vi) परिचालन व्यय	2.7	2.9	2.7	2.9
(vii) कर प्रावधान	0.8	1.0	1.0	1.1
(viii) निवल लाभ	2.4	2.7	2.8	3.2
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	76.3	72.3	71.6	71.1

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
3. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।
4. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
5. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई